



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2014/पौष 13, 1935

No. 23]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2014/PAUSHA 13, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2014

सं. 63 (आर ई 2013)/2009-2014

विषय:- विविध वस्तुओं के निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आर सी) जारी करने के लिए प्रक्रिया में संशोधन।

का. आ. 23(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा विविध वस्तुओं यथा कपास, कपास धागे आदि के निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आर सी) जारी करने के लिए प्रक्रिया का संशोधन करते हैं -

2. कुछ वस्तुएं हैं जिनके निर्यात के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसे 1 जुलाई, 2013 से अनिवार्य कर दिया गया था। ऑनलाइन आवेदन-पत्र दायर किए जाने के बाद, निर्यातकों को निर्यात सविदा की प्रति, ऑनलाइन जमा किया गया आवेदन-पत्र के साथ यथालागू साख-पत्र (एल सी) अथवा विदेशी अन्तरस्थ प्रेषण प्रमाण पत्र (एफआईआरसी) अथवा अग्रिम अदायगी के प्रमाण की एक प्रति विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय संबंधित प्राधिकरणों से आर सी की हार्ड प्रति प्राप्त करते समय प्रस्तुत करना था।

3. तत्काल प्रभाव से, दस्तावेजों जैसे ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट, साख-पत्र (एल/सी) अथवा विदेशी अन्तरस्थ प्रेषण प्रमाण-पत्र (एफआईआरसी) अथवा अग्रिम अदायगी का प्रमाण, यथालागू और निर्यात सविदा की हार्ड प्रति सौंपे जाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। संबंधित अधिसूचनाओं, सार्वजनिक सूचनाओं, नीति परिपत्रों आदि के माध्यम से पहले अधिसूचित कपास, कपास के धागे, गैर बासमती चावल, गेहूँ और चीनी के निर्यात के लिए नीति अथवा शर्तों में कोई अन्य बदलाव नहीं है।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :

पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु किसी भी आवेदन पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर करने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा. सं. 01/91/180/1194/एम 10/निर्यात सैल]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2014

No. 63 (RE-2013)/2009-2014

Subject:—Amendment in the procedure for issue of Registration Certificates (RCs) for export of various commodities.

S.O. 23(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, the Central Government hereby amends the procedure for issue of Registration Certificates (RCs) for export of various commodities viz. Cotton, cotton yarn etc.

2. There are certain commodities for which online registration procedure has been prescribed for export. This was made mandatory with effect from 1st July, 2013. After filing online applications, exporters are required to furnish printout of the application submitted online alongwith hard copies of Letter of Credit [L/C] or Foreign Inward Remittance Certificate [FIRC] or copy of proof of Advance Payment, as applicable and export contract.

3. With immediate effect, the requirement of submission of hard copies of the documents viz. printout of online application, Letter of Credit [L/C] or Foreign Inward Remittance Certificate [FIRC] or proof of Advance Payment, as applicable and export contract is dispensed with. There shall be no other change in either the policy or conditions for export of cotton, cotton yarn, non-basmati rice, wheat & Sugar notified earlier through respective Notification Public Notices, Policy Circulars etc.

4. Effect of this notification:

There shall be no requirement of submitting any document in electronic filing for obtaining Registration Certificates.

[F.No. 01/91/180/1194/AM10/Export Cell]

ANUP K. PUJARI, Director

General of Foreign Trade